

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस, शहर को निवेश करने के मुख्य स्थान के तौर पर स्थापित करना जारी रखेगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (22 अप्रैल, 2022) – ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस (Brampton Economic Development Office), ब्रैम्पटन को इनोवेशन में और निवेश करने के मुख्य स्थान में लीडर के तौर पर स्थापित करने में नेतृत्व करना जारी रखेगा। साथ ही यह, लोकल प्रतिभा को विकसित करेगा, उद्यमियों की सहायता करेगा और सिटी को आगे बढ़ाएगा, जब यह कोविड-19 (COVID-19) के प्रभावों से बाहर निकल रही है।

इस [टर्म ऑफ काउंसिल की प्रायोरिटीज \(Term of Council's Priorities\)](#) पर आधारित, जारी परिवर्तनकारी पहलकदमियां और फाउंडेशनल रिश्ते, जो स्टाफ बना रहा है और कायम रख रहा है, संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने, हमारे शहर की आर्थिक क्षमता का फायदा लेने और इनोवेशन कॉरिडोर पर ब्रैम्पटन की बेजोड़ पोजीशन लागू करने में मदद कर रहे हैं।

झलकियों में शामिल हैं:

### स्पोर्ट लोकल

- मई 2020 में, सिटी ने निवासियों को खरीदारी करने, खाने-पीने, उपहार देने और लोकल को स्पोर्ट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, [अपने "स्पोर्ट लोकल" अभियान की शुरुआत की \(launched its "Support Local" campaign\)](#) थी।
- स्पोर्ट लोकल (Support Local) अभियान, सिटी की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी की मुख्य पहलकदमी थी। यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित कारोबारियों की हिमायत करने और सिटी की अर्थव्यवस्था को बहाल करने की योजना है।

### इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट:

- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इनोवेशन और उद्यमी ईकोसिस्टम बनाकर अपने डाउनटाउन के पुनर्निर्माण और और इसकी आर्थिक क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठा रही है: ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Brampton Innovation District)।
- 2019 में समझौते शुरू करके, [सिटी ने अपने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदारों के द्वारा किए जा रहे निवेशों में, लगभग 55.2 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश के साथ, लगभग 20.5 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्धता की है \(the City has committed to investing approximately \\$20.5 million in its Innovation District, with an additional approximately \\$55.2 million in investments being drawn in by Innovation District partners\)](#)।
- 2019 से 2021 तक, छह नई साझेदारियों ने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में अपनी मौजूदगी स्थापित की है। इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदारों में शामिल हैं, ब्रैम्पटन अन्वैन्प्रीनर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton), रायरसन-संचालित वेंचर ज़ोन (Ryerson-led Venture Zone), अल्टीट्यूड एक्स्लरेटर (Altitude

Accelerator), फाउंडर इंस्टीट्यूट (Founder Institute), अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) और रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट हेडक्वार्टर्स एंड एक्स्लरेटर (Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator)। शेरिडन एज (Sheridan Edge), ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA) भी, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने में महत्वपूर्ण साझेदार हैं।

- मार्च में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपने [इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो \(Innovation District video\)](#) के लिए, इकोनॉमिक डिवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ कॅनेडा (ए.डी.ए.सी.) (Economic Developer's Association of Canada) (EDAC) मार्केटिंग कॅनेडा अवॉर्ड (Marketing Canada Award) जीता था।

### डाउनटाउन ब्रैम्पटन

- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, [12-महीने के वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम की शुरुआत के साथ \(launch of the 12-month Welcoming Streets Pilot Program\)](#), लगातार अपने डाउनटाउन में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य, लोकल निवासियों और कारोबारियों की जरूरतों पर ध्यान देते हुए और सुरक्षा में सुधार करने में मदद करते हुए, डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में व्यक्तियों को योजनाबद्ध स्ट्रीट आउटरीच सेवाएं प्रदान करना है।
- 2022 में, सिटी ने डाउनटाउन के कारोबारियों और निवासियों को सहायता देने के लिए और डाउनटाउन के पुनर्निर्माण के लिए प्रोग्राम और पहलकदमियां प्रदान करना जारी रखने के लिए, अपना डाउनटाउन ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट्स सेंटर (Downtown Brampton Projects Centre) खोला है।

### ब्रैम्पटन ऑन्ट्रप्रीनर सेंटर:

- 2019 में जॉर्ज स्ट्रीट (George Street) पर ब्रैम्पटन ऑन्ट्रप्रीनर सेंटर को-वर्किंग स्पेस (Brampton Entrepreneur Centre Co-working) खोलने के बाद, स्टाफ लोकल उद्यमियों की सहायता करने के लिए समर्पित रहा है, जिसके नतीजे के तौर पर लगभग 2000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं।
- टीम ने 44,000 से अधिक पूछताछ के जवाब दिए हैं, 5,299 छोटे कारोबार संबंधी मशविरे आयोजित किए हैं, 44,193 भागीदारों को 2,851 सेमिनार और कार्यक्रम प्रदान किए हैं, 102 युवाओं को समर कंपनी ग्रांट (Summer Company Grant) फंडिंग जारी की है, जिसकी कुल राशि 306,000 डॉलर है और 175 कारोबारियों को स्टार्टर कंपनी ग्रांट (Starter Company Grant) फंडिंग जारी की है, जिसकी कुल राशि 731,000 डॉलर है।
- 2021 में, ब्रैम्पटन ऑन्ट्रप्रीनर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre) ने, ब्रैम्पटन में छोटे से लेकर मध्यम कारोबारियों को मुफ्त कोविड-19 रैपिड स्क्रीनिंग किटें प्रदान करने के लिए, एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Emergency Management Office) के साथ मिलकर काम किया।

### फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट:

- फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) (Foreign Direct Investment) (FDI) के लिए काउंसिल की तरफ से मंजूर की गई कार्यनीति के हिस्से के तौर पर, ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस ने 2019 में, [इनवेस्टब्रैम्पटन \(InvestBrampton\)](#) और ब्रैम्पटन मीन्स बिजनेस नाउ (Brampton Means Business Now) के लिए, ब्रांडिंग और मार्केटिंग एफ.डी.आई. (FDI) आकर्षण प्रयासों की शुरुआत की।

- मेयर ब्राउन और काउंसिल के मेम्बरों ने, 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मिशनों का नेतृत्व किया, जिसके नतीजे के तौर पर ब्रैम्पटन में पांच नए कारोबार आए और पांच कारोबारी धारणा और विस्तार प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है।
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton) की शुरुआत की। यह ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग पैड है। इसकी शुरुआत के बाद, 38 नए कारोबारियों को BHive में स्वीकार किया गया है।

#### कारोबार रिटेंशन और विस्तार:

- ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस ने 2019 से, लगभग 2,500 नौकरियां पैदा करने और कायम रखने में कारोबारियों की सहायता की है।
- पैदा की गई और कायम रखी गई 2,500 नौकरियों में, शहर में एमाज़ोन (Amazon) की मौजूदगी शामिल नहीं है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान वृद्धि हुई है। एमाज़ोन के फुटप्रिंट में अब, ब्रैम्पटन में छह फैसिलिटीज शामिल हैं, जो लगभग 8,000 व्यक्तियों को रोजगार दे रही हैं।
- मार्च में, सिटी ने घोषणा की थी कि [एम.डी.ए. ने ब्रैम्पटन को अपने नए उद्देश्य-निर्मित ग्लोबल हेडक्वार्टर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस रोबोटिक्स के लिए स्थान के तौर पर चुना है \(MDA selected Brampton as the location for its new purpose-built global headquarters and Centre of Excellence for Space Robotics\)](#)। नई, बेहद आधुनिक फैसिलिटी, Canadarm3 और 700 से अधिक उच्च-कौशल वाले कर्मचारियों के लिए घर होगी।

सिटी के इकोनॉमिक डिवेलपमेंट नतीजों के बारे में अधिक जानकारी, [यहां \(here\)](#) से एक प्रेजेंटेशन में प्राप्त की जा सकती है। ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस के बारे में [यहां \(here\)](#) से अधिक जानकारी लें।

#### हवाले

“ब्रैम्पटन में रोमांचकारी परिवर्तन हो रहा है और इस टर्म ऑफ काउंसिल के दौरान, हमने हमारे शहर को बड़े इनोवेशन और शिक्षा हब में विकसित किया है, भविष्य की कुशलता वाली नौकरियां पैदा की हैं और हमारे शहर में प्रसिद्ध ग्लोबल कंपनियों को कायम रखा है, साथ ही उनके विस्तार में मदद की है। ब्रैम्पटन का अर्थ है कारोबार और जब हमारे कारोबारी और उद्यमी सफल होते हैं, तो हमारी संपूर्ण कम्युनिटी को फायदा मिलता है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“अब हमें कोविड-19 महामारी का सामना करते हुए दो वर्ष से अधिक समय हो गया है और हमारी कारोबार कम्युनिटी इससे बेहद प्रभावित हुई है – परंतु ब्रैम्पटन काउंसिल और हमारी समर्पित इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम, हर कदम पर हमारे लोकल कारोबारियों और उद्यमियों के साथ रही है। हम, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, लगातार ब्रैम्पटन को निवेश करने के मुख्य स्थान के तौर पर स्थापित कर रहे हैं और हमारे शहर को महामारी के प्रभावों से बाहर निकालकर आगे बढ़ा रहे हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस टर्म ऑफ काउंसिल की प्रायरीटीज पर आधारित, ब्रैम्पटन में जारी परिवर्तनकारी पहलकदमिया, संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने, हमारे शहर की आर्थिक क्षमता का फायदा लेने और इनोवेशन कॉरिडोर पर ब्रैम्पटन की बेजोड़ पोजीशन लागू करने में मदद कर रही हैं। ब्रैम्पटन काउंसिल और स्टाफ, हमारे विद्यार्थियों, उद्यमियों, कारोबारियों और संपूर्ण कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए, हमारे शहर की आर्थिक क्षमता का फायदा लेना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का स्टाफ, टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरीटी डिलीवर करने के लिए समर्पित है: ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और हमारी कम्युनिटी की आर्थिक क्षमता का फायदा लेना, इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। हमारी टीम ने, ब्रैम्पटन को निवेश करने के मुख्य स्थान के तौर पर स्थापित करने और ब्रैम्पटन को शिक्षा तथा इनोवेशन हब में विकसित करके शानदार काम किया है। हम हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी पर काम करके, हमारे शहर को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)